

# Neeraj Paper Marketing Ltd.

CIN: L74899DL1995PLC066194

Regd. Office: 218-222, Aggarwal Prestige Mall, Road No. 44, Near M2K Cinema, Pitam Pura, Delhi-110034, Ph.: (91-11) 47527700 Fax: 011-47527777 E-mail: accounts@neerajpaper.com • Website: www.neerajpaper.com

07/09/2019

#### SCRIP CODE: 539409

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street,
Mumbai – 400001

Subject: Intimation of Newspaper Publication- Notice of Annual General Meeting, E-voting and Book Closure

Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015

Dear Sir/Madam,

This is to inform you that in compliance of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulations, 2015, the newspaper advertisement dated 7<sup>th</sup> September 2019 published in "The Financial Express" English Edition and "Jansatta" Hindi Edition for the purpose of intimation of the following:

- 1. Annual General meeting to be held on Monday, 30th day of Sep, 2019 at 11: 00 a.m. at Bipin Chandra Pal Memorial Bhavan, A-81, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
- 2. Remote evoting shall commence from 27<sup>th</sup> September 2019 at 10:00 A.M. and ends on 29<sup>th</sup> September 2019 at 05:00 P.M. (both days inclusive).
- 3. Book closure date share transfer books of the Company shall remain closed from Monday 23<sup>rd</sup> September 2019 to Monday 30<sup>th</sup> September 2019 (both days inclusive) for the purpose of holding AGM. Record date has been fixed Monday, 23<sup>rd</sup> September 2019.

Enclosed herewith the copy of publication for your reference. Kindly take the same in your records.

Thanking You,

Yours Faithfully,

DELHI

For Neeraj Paper Marketing Limited

(Company Secretary & Compliance Officer)

FINANCIAL EXPRESS

Regd. office: - 233, Loddha Complex, Court Choraha, Udaipur Rajasthan- 313001 Notice of 74th Annual General Meeting Notice is hereby given to the members of M/s. The Mewar Industrial and Commercial Syndicate Limited that the 74th Annual General Meeting of the company will be held

(Incorporated - 1945)

on Monday 30th September 2019 at 11 A.M. at Nazar bagh, Saheli Marg, UIT Circle Udaipur (Raj.) 313001 to transact the business mentioned in the notice, Which has already been dispatched to the members. Notice is further given, pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the

Register of Members and Share transfer books of the company will remain closed from 24th September, 2019 to 29th September, 2019 (both days inclusive). By Order of the Board of Directors

Date: 04 Sept. 2019

Place: Udaipur

**Sunil Lunawat** (Chairman)

**Anurag Jhabak** (Managing Director)

### बैंक ऑफ इंडिया Bank of India

## Bank on India Aligarh Branch

POSSESSION NOTICE (for Immovable property)

[See Rule 8(1)]

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the Bank of **India, Aligarh Branch** under the Securitization and Reconstruction of Financia Assets and Enforcement on of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated: 05-06-2019 calling upon the Borrower Shri Nagendra Singh & Shri Naresh Pal Yadav and M/s Triveni Industries to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 9865951.55 + interest from 31.05.2019 (Rs. Ninety Eight Lac Sixty Five Thousand Nine Hundred Fifty One & Fifty Five Paise plus interest from 31.05.2019) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of section 13 of act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement) rules, 2002 on this the **5th day of September of the year 2019** The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank on India Aligarh Branch for the amount of Rs. 9865951.55 plus interest thereon.

The borrower attention is invited to provisions of the sub-section (8) of the section 13 of the Act, in respect of the time available to redeem the secured assets **Description of the immovable Property** 

All that part and parcel of the property consisting of Plot No./Factory No. D 137 situated at Talanagri, Tehsil- Koil, District- Aligarh (U.P.) Lease out by U.P.S.I.D.C. Aligarh in favour of M/s. Triveni Industries (Partners- Mr. Naresh Pal Singh s/o Shri Than Singh & Mr. Nagendra Singh s/o Shri Ram Singh) and lease was registered at Sub Registrar-1 Tehsil. Koil, Aligarh, U.P.

On the North By - Measurement 15m after Plot no. A-1. On the South By-Measurernent 15m thereafter 24" wide road. On the East By- Measurement 40m after Plot. On the West By- Measurement 40m after Plot no. D-136.

Date: 05-09-2019 **Authorised Officer** | Place: Aligarh Bank of India

NEERAJ PAPER MARKETING LIMITED

Regd. Office: 218-222, Aggarwal Prestige Mall, Plot No. 2, Community Center, Along Road No. 44 Pitampura, Delhi - 110034, Website: www.neerajpaper.com, Email: mansi@neerajpaper.com Landline: +91-11-47527700

CIN: L74899DL1995PLC066194

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING BOOK CLOSURE AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 24th Annual General meeting of Shareholders of the

Company will be held on Monday, 30th September, 2019 at 11:00 A.M at Bipin Chandra Pal Memorial Bhavan, A-81, Chittaranjan Park, New Delhi - 110019 to transact the business set out in the Notice which has already been sent to the shareholders individually through e-mail if his/her e-mail address is registered with the Depository / Registrar & Transfer Agent and through post if his/her e-mail ID is not so registered. The dispatch of notice of AGM has been completed on 05th September

The Company is pleased to provide its member with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may transact through e- voting Services provided by Central Depository Services Limited (CDSL). E- Voting facility will be available at the link www.evotingindia.com. The e - voting period commences on Friday, 27th Sept, 2019 at 10:00 A.M. & end on Sunday, 29th Sept, 2019 at 5:00 P.M. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, it shall not be allowed to change subsequently. The Cut-off date for the purpose of e - voting shall be Monday 23rd September, 2019. The Notice of 24th AGM is also available on the Company's website www.neerajpaper.com & on the website of www.evotingindia.com . For electronic voting instructions, Shareholders may go through the instructions in the Notice of AGM of the Company

Person who acquire shares and become member of the company after the dispatch of notice and who are eligible shareholders as on cut-off date i.e. Monday, 23rd Sept. 2019 may contact Mr. Puneet Mittal on (011-29961281) or beetalrta@gmail.com to obtain the login id and password.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. of 29th Sept. 2019. Member present at the meeting shall be provided facility to vote through polling being arrange at the venue of the meeting. A member may participate in the general meeting even after exercising her/his right to vote through remote e voting, but shall not be allowed to vote again in the meeting. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall entitled to avail the facility of remote e – voting as well as voting in the general meeting.

Mittal General Manager, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd. a beetalrta@gmail.com Telephone Nos. 011 29961281 or Ms. Mansi Taneja, Company secretary at mansi@neerajpaper.com / 01147527700 or refer to frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at www.evotingindia.com Notice pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the

In case of any queries/grievances pertaining to e-voting, you may contact Mr. Puneel

Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with regulation 42 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members & Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday 23rd Sept. 2019 to Monday 30th Sept, 2019 (Both days inclusive) for 24th Annual General meeting of Company. By Order of the Board

For Neeraj Paper Marketing Ltd. (Mansi) Company Secretary

Date: 07.09.2019

#### LORENZINI APPARELS LIMITED CIN: L17120DL2007PLC163192

Place: Delhi

Notice is hereby given that:

Regd. Office: C- 64, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi - 110020 E-mail ID: lorenzini\_apparels@yahoo.co.in Website: www.mymonteil.com. **NOTICE OF 12 th ANNUAL GENERAL MEETING** 

**REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK** CLOSURE

The 12th Annual General Meeting (AGM) of members of the Company will be held on Monday, 30th Day of September, 2019 at 09:00 A.M.at C- 64, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi - 110020 to transact the business as set forth in the Notice of AGM.

In terms of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("the Rules"), the Company is providing its members the facility to cast their vote electronically from a place other than the venue of the AGM ("remote e-voting"). provided by CSDL and the business may be transacted through such voting, on

all the resolutions set forth in the Notice of AGM:

VI. Members may note that:

Electronic copies of the Notice of AGM and Annual Report for 2019 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). The same are also available on the website of the Company at www.mymonteil.com. Notice of AGM and Annual Report for 2019 has been sent to all other members at their registered address in the

Members holding shares either in physical form or dematerialized form, as on the cut-off date 23th September, 2019, may cast their vote electronically on the business as set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) from a place other than venue of the AGM (remote e-voting). All the members are informed that:

The business as set forth in the Notice of the AGM may be transacted through voting by electronics means; The remote e-voting shall commence on 27th Day of September, 2019 at

The remote e-voting shall end on 29th Day of September, 2019 at 5.00

P.M. and thereafter E-Voting through shall not be allowed; The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rdDay of September, 2019.

V. Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. Monday 23thDay of September, 2019 may obtain the Login ID and Password by sending a request athelpdesk.evoting@cdslindia.com. However, if a person is already registered with CDSL for e-voting then existing user ID and password car be used for casting vote;

a) the remote e-voting module shall be disabled by CDSL beyond 5.00 P.M. on 29th Day of September, 2019 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to

change it subsequently; the facility for voting through ballot paper shall be made available a venue of the AGM;

the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again; and a person whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners maintained by the depositories as on the

cut-off date only shall be entitled to avail facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through ballot paper. VII. The Notice of AGM is available on the Company's website www.mymonteil.com and also on the CDSL's website

www.evotingindia.com For any queries/ grievances related to e-voting shareholders may contact to:

Skyline Financial Service Private Limited, D-153-A, 1st Floor, Okhla Industries Area, Phase - 1, New Delhi-110020, E-mail: info@skylinerta.com.

The Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from Tuesday, 24th Day of September 2019 to Monday, 30th Day of September 2019 (both day inclusive).

For LORENZINI APPARELS LIMITED

Sandeep Jain **Managing Director** DIN: 02365790

## SATIA INDUSTRIES LIMITED

## NOTICE

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting ('meeting') of the Members of Satia Industries Ltd['Company] will be held on Monday 30th September, 2019 at 10.30A.M. at the Registered Office of the Company at SatiaIndustries Ltd, at VPO: Rupana, Malout-Muktsar Road, District: Muktsar-152026 to transact the Business as set out in the Notice convening the meeting dated August 12,2019

Electronic copies of the Notice of the meeting and the Full Annual Report for the Financial Year 2018-19 have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company Depository Participant (s) These documents are also available on the website of the Company, at www.satiagroup.com. The Notice convening Annual General Meeting and the Annual Report for the Financial Year 2018-19 has been dispatched to all eligible members at their Registered address through permitted Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013

read with Rule 20 of the Companies[Management and Administration)Rules 2014,as amended,and Regulation 44 of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, the Company is also providing its members facility to exercise their right to vote on resolution proposed to be passed in the meeting of the Company. The members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the meeting ['remote e-voting]. The Company has engaged the services of Central Depository Services IIIndia) Limited ['CDSL'] as the agency to provide electronic voting facility. The procedure for e-voting is given under the head "Voting through electronic means" in the Notice.

The communication relating to remote e-voting inter-alia containing User ID and password alongwith the copy of Notice convening the meeting has been dispatched to the Members. This communication and the Notice of the meeting are available on the website of the Company at www.satiagroup.com and on the website of CDSL at www.evotingin-

The remote e-voting facility shall commence on 27thSeptember, 2019 at

10:00AM and ends on Sunday 29th September, 2019 at 5:00PM.The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. A person, whose name appears in the Register of Member/ Beneficial owner as on the cut-off date i.eMonday 23.09.2019, only shall be entitled to avail the facility of remote e- voting as well as voting at the meeting. Any person who becomes member of the company after dispatch of the Notice of meeting and holding shares as of the cut -off datedi.e Monday23.09.2019 may obtain the user ID and password by sending a request at helpdesk, evoting@cdslindia.com. The detailed procedure for obtaining user id and password is also provided in the notice of the meeting which is available on the company's website and CDSL's website. If the member is already registered with CDSL for e-voting then he can use his existing user ID and password for casting the vote through remote e-voting. The members who have cast their vote by remote e-voting may attend

the meeting but shall not be entitled to cast their vote again. The facility of venue e-voting or Poling Paper shall be made available at the meeting and the member attending the meeting who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the meeting through venue e-voting or polling paper.

In case you have any queries/issues /grievances connected with e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com or RTA,Beetal Financial and Computer Services (P) Ltd FOR SATIA INDUSTRIES LIMITED PLACE:RUPANA (R.K.BHANDARI)

DATE : SEPTEMBER 7,2019 JOINT MANAGING DIRECTOR



## PNC INFRATECH LIMITED

CORP. OFFICE: 3/22-D, Civil Lines, Agra-Delhi Bypass Road, Agra-282002 Contact No.: 011-29574800, 0562-4054400, Fax No.:0562-4070011, Website: www.pncinfratech.com E-mail: complianceofficer@oncinfratech.com

REGD. OFFICE: NBCC Plaza, Tower-II, 4th Floor, Pushp Vihar, Sector-V, Saket, New Delhi-110017

Notice of the 20th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-Voting Information

NOTICE is hereby given to the Members of the Company and to all the persons that 20th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 30, 2019 at 11:00 A.M. at Auditorium ISKCON Complex, Hare Krishna Hill, Sant Nagar, Main Road, East of Kailash, New Delhi - 110065 to transact the Business, as set out in the Notice of the AGM. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 ('Act'), electronic copies of the Notice of the 20" AGM and the Annual Report of the Company for the Financial Year 2018-19 have been sent to all the Members, whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s) and physical copies of the same have been sent to all other Members at their registered address in the permitted mode and the same is uploaded on website of the Company www.pncinfratech.com.

In terms of Section 91 of the Act, Rules made there under and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 ('Listing regulation') that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Tuesday, September 24, 2019 to Monday, September 30, 2019 (both days inclusive) for the purpose of said AGM of the Company and payment of dividend, if approved at the AGM.

The Dividend will be payable to the shareholders, whose names appear in the Register of Beneficial Ownership/Register of Members, as at the close of business hours on Monday, September 23, 2019.

In terms of Section 108 of the Act, Rules made there under and Regulation 44 of the Listing regulation, the Company is providing remote e-voting facility ("e-voting") to all its Members through the evoting platform of Link Intime India Private Limited (LIIPL) in respect of Resolutions to be passed at the Annual General Meeting (AGM Resolutions). Mr. Deepak Gupta, Company Secretary. Partner of DR Associates (Membership No. FCS 5339; CP No. 4629), has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote e-voting and ballot process in a fair and transparent manner. All Members are requested to take note of the following schedule of e-voting.

Particulars	Date
Date of completion of dispatch of Notice by post	Friday, 6 <sup>th</sup> September, 2019
Date of completion of dispatch of Notice by e-mail	Friday, 6th September, 2019
Date & time of commencement of e-voting	Friday, 27th September 2019 from 9:00 A.M. IST
Date & time of end of e-voting	Sunday, 29 <sup>th</sup> September 2019 up to 5:00 P.M. IST
Cut-off date to determine the shareholders entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting in the general meeting	Monday, September 23, 2019
Date of declaration of result	Wednesday, 2 <sup>rd</sup> October, 2019
Kindly note that the voting by	electronic means in respect of AGM

Resolutions, shall not be allowed beyond the date and time specified in the above schedule. Members, who exercise their right through evoting, may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Once the Vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after dispatch of the Notice and is holding shares as on the cut-off date Monday, September 23, 2019, may

follow the procedures and instruction mentioned in the Notice of 20th AGM for remote e-voting. However a person is already registered with InstaVOTE for remote e-voting, then they can use their existing user ID and password for casting vote. Members who have not cast their votes by e-voting may cast their votes at the AGM by way of polling paper or Ballot paper. The Voting rights shall be as per the number of equity shares held by the Member(s) as on Monday, 23rd September 2019 (cut-off date).

The procedure of electronic voting is available in the notice of AGM as well as in the e-mail sent to the Members. In case you have any grievances connected with e-voting, please refer the Instavote e-Voting manual /Frequently Asked Questions ("FAQs") available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or contact Mr. Rajiv Ranjan Assistant Vice President - e-Voting on ■Phone: +91 22 49186000; email: enotices@linkintime.co.in or. contact undersigned by writing an e-mail to complianceofficer@pncinfratech.com, 

phone no. 0562-4054400. By Order of the Board of Directors

Date: 6th September, 2019

Place: Agra

For PNC Infratech Limited Sd/-Tapan Jain Company Secretary & Compliance Officer M. No: A22603



The Karur Vysya Bank Ltd., (KVB) Karur Vysya Bank DIVISIONAL OFFICE, No.6, 3rd Floor,

Smart way to bank Opp: Metro Pillar No: 80, Pusa Road, Karolbagh, New Delhi – 110 005

Possession Notice (For Immovable Property) Issued under Rule 8(1)] of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Whereas, the undersigned being the Authorized officer of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED under the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest (Second) Act, 2002 (Act 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 04.07.2019 calling upon the borrower 1. M/s Fortune Retail, Per Prop. Himashu Girdhar, Mother Care Store, B-3, Model Town-2, Ground Floor, New Delhi-110009, Also May be at: Mother Care Store, G-41, Abdul Fazal Enclave II, Vishwasji Sadak, Shaheen Bagh, New Delhi-110025; (2) Mr. Himanshu Girdhar, S/o Mr. Gurucharan Dass Girdhar, 17/10, 1st Floor, Front Portion, Kalkaji, Delhi-110019; (3) Mr. Rohit Arora, s/o Mr. Om Prakash, H.No. 3127, Gali No. 4, Old Dharm Pura, Gandhi Nagar, Delhi-110031 to repay the amount mentioned in the notice being Rs.2,62,63,957.40 (Rupees Two Crore Sixty Two Lacs Sixty Three Thousands Nine Hundred Fifty Seven and Paisa forty Only within 60 days from the date of receipt of the said notice. Even though, borrower paid a sum of Rs. 10,50,707.50 (Rupees Ten lacs Fifty Thousands

Seven Hundreds Seven and Fifty Paisa only), the account is left with balance outstanding of Rs. 2,59,60,418.90 (Rupees Two Crore Fifty Nine Lacs Sixty Thousands Four Hundred Eighteen and paisa Ninety only) as on 04.09.2019 apart from undebited interest. The borrower having failed to repay the entire demand notice amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under sub-section (4) of section 13 of Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on this the 5th day of September of the year 2018; The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with

the property and any dealings with the property will be subject to the charge of THE KARUR VYSYA BANK LIMITED for an amount of Rs. 2,59,60,418.90 (Rupees Two Crore Fifty Nine Lacs Sixty Thousands Four Hundred Eighteen and paisa Ninety only) and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of

the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property Entire residential built up of first floor at No. 17/10, Khasra No: 1/53, Khewat No: 68/143, Kalkaji, Delhi - 110 019 and bounded by: North : Plot No: 17/9 South: Service Lane East : Other Flat West : Road Chief Manager & AUTHORIZED OFFICER Place: Delhi Date: 05.09.19 THE KARUR VYSYA BANK LIMITED

### JAGAT TRADING ENTERPRISES LIMITED CIN: L74999DL1982PLC014411

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED RESULTS

Registered Office: 208, Magnum House-II, Karampura Community Centre, New Delhi-110015 E-mail Id: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, Website: www.jtel.co.in

FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2019 (RS. in i nousand Quarter Ended Quarter Ended No. **PARTICULARS** 30.06.2019 30.06.2018 Unaudited Unaudited Revenue from Operations 5,457.21 8,695.56 Sales/ Income from Operations **Total Revenue from Operations** 5,457.21 8,695.56 1,020.04 22.00 Other Income Total Income (1+2) 6,477.25 8,717.56 Expenses 10,189.67 (a) Purchases of stock-in-trade 769.40 5,294.84 (571.75) (b) Changes in inventories of stock-in-trade

1,159.23 1.054.13 (c) Employee benefits expense 486.16 712.77 (d) Finance Cost 2.57 (e) Depreciation and amortisation expense 3.68 (f) Provision of Assets 20.00 818.91 9.046.14 (g) Other expenses 20,434.64 Total expenses (3) 8,551.11 Loss before exceptional items and tax (3-2) (2,073.86)(11,717.08)Exceptional items 2,169.64 Loss before taxes (4-5) (2,073.86)(13,886.72) (1,001.13) Tax expense (including Current Tax and 191.12 Deferred Tax) Loss after Tax for the Period (6-7) (2,264.98)(12,885.59) Other Comprehensive Income (net of tax) Items that will not be reclassified to profit and loss Items that will be reclassified to profit and loss Total Comprehensive Income for the period (8+9) (12,885.59) (2.264.98)Paid-up Equity Share Capital 50.816.40 9,964.00 (Face Value of Rs 10/- each)

Notes: The Unaudited Financial Result for the quarter ended June 30, 2019 have been approved by the Board of Director in their meeting held on September 06, 2019 after being reviewed and recommended by the Audit committee The financial result have been subjected to limited review by the statutory auditors.

12 Earnings per share

Basic and Diluted

(Face Value of Rs 10/- each)

Segment reporting as defined in Accounting Standard -17 is not applicable as the Company is in engaged in NBFC Business Other Expenses for Quarter ended as on June 30, 2019 included donation of Rs.500

Previous quarter and year ended figure have been regrouped / rearrange, wherever

As per Ministry of Corporate Affairs (MCA) notification dated February 16, 2015, the Indian Accounting Standards (IndAS) are mandatory for the company for the Financial year commencing on or after April 01, 2019. Accordingly, the company has adopted IndAS from April 01, 2019 and the financial result for the quarter ended June 30, 2019 is prepared in accordance with the principles laid down in the said IndAS and the Statutory Auditor have carried out the limited review of the same. The financial result for the corresponding quarter ended June 30, 2018 is restated under IndAS and has not been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the

Reconciliation of Statement of Profit and Loss as previously reported under IGAAP and Ind AS.	Quarter ended June 30, 2018 (In Rs. in Thousands)
Net Profit/ (Loss) as per IGAAP	(12,011.23)
Add:	XX/XXY (X)
Change in Fair Value of Investments and Inventory (Net of Tax)	(874.36)
Total Comprehensive Income for the Quarter	(12,885.59)

Company. However the management has exercised necessary due diligence to

ensure that the financial results provide a true and fair view of Company's Affairs.

(Praveen Kumar Goel) Chairman

Place: New Delhi Date: 06.09.2019 DIN No: 00021153 Syndicate Bank

GOLDEDGE ESTATE AND INVESTMENTS LIMITED Regd. Office: C-115. Mansarovar Garden Ground Floor New Delhi-110015 CIN: U70101DL1992PLC047541 Ph. No.-011-25193268 Web Site: www.goldedgeestate.in E mail: goldedgeestate2016@gmail.com NOTICE TO MEMBERS

The Notice is hereby given that:-

The Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held at C-115, Mansarovar Garden Ground Floor, New Delhi-110015, on Monday, 30th September, 2019 at 02:00 p.m. to transact the business as set out in the Notice of AGM. The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Monday, 23rd September 2019 to Monday, 30th September, 2019 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. Notice of the AGM has been sent to all members, whose names appeared in the

register of members/ Record of RTA on 17th August, 2019, at their registered address/ email ID in the permitted mode. The dispatch of Notice of AGM has been completed on 05th September, 2019. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form as on cutoff date of 23rd September, 2019, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of AGM through electronic voting system of Central

Depository Services (India) Limited "CDSL" from a place other than Venue of AGM (Remote E-Voting). The members are informed that: the business set out in the Notice of the AGM may be transact through voting

by electronic means; the remote e-voting shall commence on Friday, September 27, 2019 at 9:00 am;

the remote e-voting shall end on Sunday, September 29, 2019 at 5:00 pm;

the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is 23rd September, 2019.

any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cutoff date i.e. 23rd September, 2019 may write to the Company at the

abovementioned email ID or at the registered address to obtain Notice of the

meeting and procedure for E-voting (including Login Id and password). Members may please note that; (a) The e-voting shall not be allowed beyond Sunday, September 29, 2019 at 5:00 p.m. and once the vote on a resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently. (b) the facility for voting through ballot paper shall be made available at AGM. (c) the members who have cast their vote, by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again and (d) a person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as of the cut-off

The members of the Company who have not received the notice are requested to download the same from the website of MSE Limited www.msei.in and from the website of the Company www.goldedgeestate.in

date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as

viii. In case of queries, members may contact Mr. Nikhil Bansal, Director cum Chief Financial Officer at the above Registered Office, Phone: 011-25193268, e-mail id: goldedgeestate2016@gmail.com or the Registrar and Transfer Agents at the following address: Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase - 1, East of Kailash, New Delhi - 110020 Tel: 011-26812682-83 Fax:011-26812682, E-Mail ID: virenr@skylinerta.com For Goldedge Estate and Investments Limited

Jagdish Chand Agarwal

CAN FIN HOMES LTD.

payment within 60 days from the date of the said notice.

Place: New Delhi

Date: 05.09.2019

voting at the AGM through ballot papers.

## SCO - 34 & 35, 1st Floor, Above Canara Bank, Sector - 10 A. Gurgaon, Ph: 0124-2370035, 2370760

(See Rule 8 (1)) POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers under the said Act and Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 06/06/2019 calling upon the borrowers- Mrs. Priya Singh (borrower) W/o Sanjay Kumar House No. 216/417 Block-d, Behind Prakash Banquet Hall, Tau Gopi Wali Gali, Rajendra Park Gurgaon (Haryana), Mr. Sanjay Kumar (co-applicant) S/o Brahm Dev House No. 216/417 Block-D, Behind Prakash Banquet Hall, Tau Gopi Wali Gali, Rajendra Park Gurgaon (Haryana), Mr. Saurabh Sharma, S/o Eshwar Deen Mishra (Guarantor) House No. 363, Ghora Mohalla, Near Shivam Apartment Aya Nagar, South Delhi 110047 to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 30,84,035.00/- (Rupees Thirty Lacs Eighty Four Thousand Thirty Five only) and interest from 06/06/2019 to till date of final

The undersigned being the Authorised Officer of Can Fin Homes Ltd. under the

The borrower having failed to repay the amount, Notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of Security Interest Enforcement) Rules, 2002 on the 29th day of August of the year 2019. The borrower's attention is invited to provision of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the CFHL for an amount of Rs. 30,84,035.00/- and interest and other expenses thereon. Description of immovable property

HOUSE NO. 216/417, BLOCK-D, BEHIND PRAKASH BANQUET HALL, TAU GOP WALI GALI, RAJENDRA PARK GURGAON (HARYANA), admeasuring 800 sq. ft BOUNDARIES: NORTH: PROPERTY OF J.P. MISHRA, SOUTH: PROPERTY OF ROSHAN LAL, EAST: ROAD, WEST: OTHER PROPERTY Date: 29/08/2019 Authorized Officer. Place: Gurugram Can Fin Homes Ltd.

#### **SOMANI IRON & STEELS LIMITED** CIN: U27110UP1971PLC003427

Reg. Office-Somani Bhawan, 51/27, Nayaganj, Kanpur-208001

Phone-0512-2330152, Fax-0512-2330132 Email Id: sislknp@gmail.com / cs@rhlprofiles.com

NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on Monday, 30th September, 2019 at 10:30 am at City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote e-voting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has engaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 06.09.2019.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 25th September 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Friday, September 27, 2019 at 09:30 A.M. and ends on Sunday, September 29, 2019 at 5:00 P.M. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The evoting shall not be allowed beyond 5:00 P.M of 29.09.2019. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company, & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any gueries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, Somani Iron & Steels Limited, 63/2, City Centre, 4" Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 0512-2330153 email:

> For Somani Iron & Steels Limited Rajendra Kr. Somani (Director) DIN: 00723205

POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Rule-8(1)

Place: Kanpur

Date:06.09.2019

cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password.

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Syndicate Bank, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (2) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice Calling upon the Borrower/Guarantors and owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The Borrower/Guarantors having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has

taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read

(12.93)

(0.45)

(Not Annualised) (Not Annualised)

with rule 8 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this mentioned the date. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-sec (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower/surety/owner of property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Syndicate Bank, Respective Branch for Notice amounts and interest thereon.

ìr.	Branch & Name of The	Description of Immovable Property/	Date of	Date of	Outstanding
lo.	Borrower/Guarantor	Owner of Property	Demand Notice	Possession	Ammount
	Sharma Sh. Vinesh Kumar S/o Dev Dutt Sharma, Sh. Rageev Kaushik S/o Sh. Dev Dutta Sharma, Sh. Rayi Tomar S/o Sh. Satvadev	Residential House 103, Khasra 1367M, Admeasuring 70 square yards, Mohalla Dev Nagar, Sonda Road, Village Begmabad, Modinagar, Ghaziabad Owned by Sh. Dinesh Kumar, Sh. Rajiv Kaushik, Sh. Vinesh Kumar and		03.09.2019	Rs. 4,14,808.40 + Further Intrest & other Charge.

Bounded: North: Property of others, South: 16 Dated Branch: DMPS, Modinagar, Branch. feet wide road, East: House of Prop. Sellar, 01.06.2019 West: Plot of Onkar. 28.06.2019 06.09.2019 Rs. 15,81,354.27 Borrower: Smt. Babita Sirohi, Balaji Traders All that part and parcel of Land & Building of Residential Plot No. 37, Admeasuring Area Binu Sirohi, Rina Sirohi, Rajkumar Sirohi. Branch: Rakesh Marg, Nehru Nagar, Branch. 100.16 sq.yards i.e. 83.75 sq.mtrs. in Khasra no. Further Intrest 836. situated at Village Harsaon, Avantika & other Charge. Colony-II, Free Hold Ghaziabad, Paragna Dasna, Tehsil & Distt. Ghaziabad Owned by Mrs.

Reena & Mrs. Babita and Bounded: North

Other Land SM 5 Mtr., South: 7.5 mtr. wide road

SM 5 Mtr., East: Plot no. 38 SM 16.75 Mtr., West: Plot no. 36 SM 16.75 Mtr. Date: 06.09.2019 Regional Office: Ghaziabad. **Authorised Officer** 

New Delhi

Place: New Delhi

**Date:** 07.09.2019

क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 14 और कंपनी

करने के लिए समाचार-पत्र में विज्ञापन

(निगमन) नियम, 2014, के नियम 41 के मामले में

#### हर्ष पैट्रोलियम लिमिटेड, सीआईएन: U74899DL1995PLC067678

जिसका पंजीकृत कार्यालय 303 तृतीय तल, शिव लोक हाउस-१. कौमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कर्मपुरा, नई दिल्ली 110015 मारत पर स्थित है, के मामले में, .....आवेदक इस नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 14 के तहत कंपनी केन्द्र सरकार को एक आवेदन करती है, र्विक्त नियमों के साथ पढ़ा जाए, जो कि कंपनी को गईवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की इच्छुक है और कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनी द्वारा 29/07/2019 को आयोजित एक असाधारण आम

सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। कंपनी के इस प्रस्ताववित परिवर्तन / प्रस्थिति से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की आशंका है, तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक, को एक शपथ-पत्र, लगाकर अपनी याचिका क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 14 दिवस की अवधि के मध्य भेज सकता है, और याचिका की एक प्रति: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें

303 तृतीय तल, शिव लोक हाउस-1, कौमर्शियल कॉम्प्लेक्स, कर्मपुरा, नई दिल्ली 110015 मारत

आवेदक के द्वारा और उनकी और से हर्ष पैट्रोलियम लिमिटेड नितेश भदानी

दिनांक: 07.09.2019 निदेशक स्थानः नई दिल्ली DIN.07802942

फॉर्म नः आईएनसी-25ए सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तन करने के लिए समाचार-पत्र में विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र कॉर्पोरेट मामलॉ के

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014, के नियम 41 के मामले में मारूति ट्रेड लिंक्स लिमिटेड

सीआईएन: U52110DL1986PLC023161 जेसका पंजीकृत कार्यालय जी88. प्रथम तल. मरिजद मोठ, ग्रेटर कैलाशना एंक्लेव, नई दिल्ली 110048 पर स्थित है, के मामले में,

स नोटिस के माध्यम से सर्व साधारण को सुचित किया जाता है, कि कंपनी अविनियम 2013 की धारा 14 व तहत कंपनी केन्द्र सरकार को एक आवेदन करती है पूर्वोक्त नियमों के साथ पदा जाए, जो कि कंपनी को प्राईवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की इच्छ्क है और कंपनी को सक्षम बनाने हेतु कंपनी द्वारा 29/07/2019 को आयोजित एक असाधारण आम सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया कंपनी के इस प्रस्ताववित परिवर्तन / प्रस्थिति से यदि

किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होने की आशंका है. तो वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक, को एक शपथ-पत्र, लगाकर अपनी याचिका क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2, विंग, दिल्ली-110003 के पते पर इस सूचना के प्रकाशित होने के 14 दिवस की अवधि के मध्य भेज सकता है, और याथिका की एक प्रति: कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के निम्नलिखित पते पर भेजें: 303 तृतीय तल, शिव लोक हाउस-1, कौमर्शियल

कॉम्प्लेक्स, कर्मपुरा, नई दिल्ली 110015 भारत आवेदक के द्वारा और उनकी ओर रं मारूति ट्रेड लिंक्स लिमिटेड नितेश मदानी दिनांक: 07.09.2019 निदेशक स्थानः नई दिल्ली DIN: 07802942

प्रपत्र सं. युआरसी-2 अध्याय xxi के भाग । के तहत पंजीकरण के सम्बन्ध में सूचना देने का विज्ञापन

(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुपालन में)

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की गरा 366 की उपधारा (2) के अनुपालन में अब से पन्द्रह दिनों के पश्चात किन्तु रा.रा.क्षेत्र दिल्ली में इसके पश्चात 30 दिनों की समापन अवधि से पूर्व एक आवेदन करने का प्रस्ताव होना है कि कोडवाइन क्रियेटिव्स एलएलपी को शेयरों द्वारा लिमिटेड कम्पनी के रूप में कन्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI भाग । के तहत पंजीकृत किया जाये। कम्पनी के प्रमुख उदेश्य निम्नलिखित हैं:

पोर्टलों, वेब तथा सॉफ्टवेयर विकास, मोबाइल एप्लीकेशन वे विकास, एनिमेशन एवं ग्राफिक्स डिजाइनिंग, डोमेन, होस्टिंग एवं ई—मेल सेवाएँ, हार्डवेयर तथा नेटवर्किंग समाधान, एसईओ, इंटरनेट एवं सोशल मार्केटिंग, पीपीसी विज्ञापन प्रबन्धन, एसईओ एवं उब्ल्यु३ विशेषज्ञता प्रशिक्षण अथवा अन्य सेवाओं सहित वेब तकनीक एवं ई-कॉमर्स की ऑनलाइन सेवाओं के विकास, डिजाइनिंग, प्रोत्साहन तथा रखरखाव उपलब्ध कराने

 डाफ्ट मेमोरेंडम तथा प्रस्तावित कम्पनी के अन्तर्नियमों की एक प्रति कार्यालय मकान नं. ७, ब्लॉक के-2, मॉबल टाउन 💵

करने वाला कोई व्यक्ति **भारतीय कारपोरेट मामले संस्थान** (आईआईसीए), प्लॉट सं. ६, ७, ८, सेक्टर ६, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड–122050 पर केन्द्रीय **पंजीकरण केन्द्र** (सीआरसी) के पास इस सूचना के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित रूप में एक प्रति कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करा। सकता है।

इस सितम्बर माह की 6 तारीख, 2019

आवेदकों के नाम 1. विक्रम सरन | 2. प्रदीप कुमार

प्रारूप सख्या २५क पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष नॉर्थेर्न रीजन नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में

मेसर्स "हाई-टेक मेडिकल प्रोडक्टस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, बर्लिंगटन स्क्वायर, बर्लिंगटन क्रॉसिंग, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001, में स्थित है के मामले में, (आवेदक)

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि कंपनी को ऐसे संपरिवर्तन का अधिकार देने के लिए तारीख 24.08.2019 को आयोजित विशेष आम अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प कि शर्तों के अनुसार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में संपरिवर्तन करने कि इच्छा रखने वाली कंपनी ने पूर्वोक्त नियमों के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 कि धारा 14 के अधीन आवेदन किया है।

कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन स्थिति के कारण यदि किसी व्यक्ति के हित पर प्रभाव पड़ने कि संभावना है तो वह व्यक्ति इस सुचना के प्रकाशन कि तारीख से 14 दिन के भीतर निम्नलिखित पते पर आवेदक कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को भेजी गई प्रति सहित किसी हलफनामे द्वारा अपनी आपत्ति भेज सकता है या किसी के माध्यम से मिजवा सकता है या रजिस्ट्रीकृत पोस्ट द्वारा भेज सकता है जिसमे सम्बंधित क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नॉर्थेर्न रीजन नई दिल्ली-110003 को उसके हित और आपत्ति के आधार की प्रकृति का उल्लेख

आवेदक के लिए या उसकी ओर से

किया जायेगा।

मोहम्मद उस्मान निदेशक

Din: 03261839 हाई-टेक मेडिकल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : तीसरी मंजिल, बर्लिंगटन स्क्वायर, बर्लिंगटन क्रांसिग,

विधान सभा मार्ग लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001"

तारीख : 06.09.2019 स्थान : लखनऊ

epaper.jansatta.com

# नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड

CIN: L65993DL1970PLC146414 पंजीकृत कार्यालय: 28, नजफगढ़ रोड, मोती नगर इन्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110015 फोन नं. (011) 45021854, 45021812 फैक्स नं. (011) 25928118, 45021982 ब्रांच ऑफिस : ओ.पी. जिंदल मार्ग, हिसार-125005, हरियाणा

ई-मेल आईडी: investorcare@nalwasons.com, वेबसाइट : www.nalwasons.com

## 48<sup>ब</sup> वार्षिक साधारण सभा, रिमोट ई-वोटिंग जानकारी तथा पुस्तक बंद होने की सूचना

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

 कंपनी की 48" वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को अपराहन 3.30 बजे एन.सी. जिंदल पब्लिक स्कुल, रोड नं. 73, वेस्ट पंजाबी बाग, नई दिल्ली-110026 में की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को

2. एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2018-19 के वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां ऐसे सभी सदस्यों को भेज दी गई है जिनके ई-मेल आईडी कंपनी के आरटीए/डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत है। यह कंपनी की वेबसाइट www.nalwasons.com पर भी उपलब्ध है। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां अन्य सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पते पर भेज दी गई है। एजीएम के सूचना प्रेषण कार्य को 06 सितम्बर, 2019 को पूरा कर लिया गया है।

23 सितम्बर, 2019 की कट ऑफ तिथि को भौतिक पद्धति अथवा डीमैटेरियलाईज्ड पद्धति में शेयर धारित करने वाले सदस्य एजीएम के स्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल") की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि

एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट साधारण तथा विशेष व्यवसायों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है।

हिमोट ई-वोटिंग 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे आरम्भ होगी। सिमोट ई-वोटिंग 29 सितम्बर, 2019 को सायं 5.00 बजे बंद होगी।

iv) रिमोट ई-वोटिंग पद्धति वोटिंग के लिये उपरोक्त तिथि एवं समय के बाद एलआईआईपीएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर दिये जाने के बाद उसमें बाद में परिवर्तन करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जायेगी।

v) एजीएम में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने के लिए पात्रता निर्धारण हेत् कट-ऑफ तिथि 23 सितम्बर, 2019 है। vi) ऐसे ही सदस्य रिमोट ई-वोटिंग और वार्षिक साधारण सभा में मतदान करने के लिए अधिकृत होंगे जिसके नाम कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपाजिटरी द्वारा प्रबंधित लाम मोगी स्वामी के रजिस्टर में दर्ज होंगे। एजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

vii) जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग की सुविधा नहीं हो, उनके पास अपने फोलियो/डीपी आईडी तथा क्लाइंट आईडी का उल्लेख करते हुए investorcare@nalwasons.com पर ई-मेल भेज कर बैलेट प्रपत्र की भौतिक प्रति प्राप्त करने का विकल्प है अथवा वे कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन, विधिवत पूर्ण बैलेट प्रपत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में अधिकतम रविवार, 29 सितम्बर, 2019 (5.00 बजे साय) तक पहुंच जाना चाहिए। उपरोक्त तिथि के बाद प्राप्त बैलेट प्रपत्र को अवैध माना जायेगा।

viii) सदस्य मतदान की केवल एक ही पद्धति अर्थात ई—वोटिंग द्वारा अथवा बैलेट पत्र द्वारा मतदान के विकल्प का चयन कर सकते हैं यदि कोई सदस्य दोनों पद्धतियों द्वारा मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग द्वारा किया मतदान मान्य होगा तथा बैलेट प्रपत्र द्वारा मत<mark>दान</mark>

ix) ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे दिया हो, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

x) ऐसे सदस्य जो एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी के सदस्य बनते हैं तथा कट ऑफ तिथि अर्थात 23 सितम्बर, 2019 को शेयर धारक रहते हैं वे enotices@linkintime.co.in पर प्रार्थना भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ई-वोटिंग के लिए एलआईआईपीएल में पहले से पंजीकृत है तो वे मतदान करने के लिये वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। xi) ई-वोटिंग से संबंधित पुछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linkintime.co.in के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (\*FAQs) और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैन्युअल देखें या श्री शैलेश म्हात्रे, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ("एलआईआईपीएल"), सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400083 से दूरभाष 022-49186000 (ई—मेल :enotices@linkintime.co.in) पर या कंपनी से संपर्क करें।

xii) एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.nalwasons.com तथा एलआईआईपीएल वेबसाइट https://instavote.linkintime.co.in पर भी उपलब्ध है।

xiii) स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रक्रिया में ई—वोटिंग का संचालन करने के लिए कंपनी ने मेसर्स विशाल अरोड़ा एंड एसोसिएटस के श्री विशाल अरोड़ाह, व्यवसायरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. F5958) को (सदस्यों से प्राप्त बैलट प्रपत्र सहित) पर्यवेक्षण के लिए पर्यवेक्षक


उद्देश्य से बंद रहेंगे एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.nalwasons.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों, जहां कंपनी सूचीबद्ध है, अर्थात

4. सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी की शेयर अंतरण पुस्तक 18 सितम्बर, 2019 से 19 सितम्बर, 2019 (दोनों दिन सहित) तक एजीएम के

www.nseindia.com और www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान : हिसार तिथि: 06 सितम्बर, 2019

कृते नलवा सन्स इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड (दीपक गर्ग) मुख्य वित्तीय अधिकारी



कार्यालय वसूली अधिकारी-॥ ऋण वसूली अधिकरण-।।।, दिल्ली

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक 23.08.2019 आर. सी. सं. 550/2018 विक्री उदघोषणा

ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बनाम एम.पी. एसोसिएट्स और अन्य बिक्री की उद्घोषणा अन्तर्गत आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) बैंक और वित्तीय संस्थान की ऋण वसूली अधिनियम 1993

सीडी नं. 1. मैसर्स एमपी एसोसिएट्स, 18/1091, प्रथम तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 और: 2054, द्वितीय तल, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर-49, फरीदाबाद-121001 और : ई- । । । / 35, मोलरबंद एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110044

सीडी नं. 2. मनया प्रतीक नय्यर पुत्र विवेक नय्यर, 18/1091, प्रथम तल, आर्य समाज रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005 और: 2054, द्वितीय तल, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर—49, फरीदाबाद—121001 और : ई— । । । / 35, मोलरबंद एक्सटेंशन, नई दिल्ली—110044 सीडी नं. ३. गिरीश चंद गर्ग पुत्र स्वं. हरीश चंद गर्ग, ३४३, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद

सीडी नं. 4. गौरव गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद सीडी नं. 5. सौरभ गर्ग पुत्र गिरीश चंद गर्ग, 343, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद

सीडी नं. ६. मनिंदर सिंह ओबेरॉय पुत्र धनवत सिंह ओबेरॉय, ए-304, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर - 49, फरीदाबाद

सीडी नं. 7. परवीन नय्यर पत्नी विवेक नय्यर, 2054, द्वितीय तल, सैनिक कॉलोनी, सैक्टर-49, फरीदाबाद, <u>और:</u> ए-304, सैनिक कॉलोनी,

सैक्टर-49, फरीदाबाद जैसा कि आपने पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण- III, दिल्ली द्वारा ओ ए नं. 486/2015/डी आर टी- III, दिल्ली में ऋणवसूली प्रमाणपत्र के संबंध में आपके / उनके द्वारा देय योग्य **रु. 5,26,24,818/— (रु. पाँच करेाड छब्बीस लाख चौबीस हजार आठ सौ** 

**अड्डारह मात्र)** और साथ में साधारण ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित प्रमाणपत्र के अनुसार देय योग्य ब्याज व लागत का भूगतान प्रतिवादी रूप से नही किया गया है। और जैसाकि अधोहस्ताक्षरी ने इस प्रमाणपत्र से संतुष्ट हो कर निम्नलिखितानुसार उल्लिखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है।

और जहाँ पर रु. 5,28,24,818 /- (रु. पाँच करोड छब्बीस लाख चौबीस हजार आठ सौ अट्ठारह मात्र) और साथ में ओ. ए दाखिल करने की तिथि

अर्थात 13.07.2015 से साधारण वार्षिक ब्याज एवं खर्चे इत्यादि सहित अदायगी की तिथि तक देनदारों से संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से देय है। एतदहारा सूचित किया जाता है कि स्थगन के किसी आदेश के आभाव में उक्त सम्पत्ति को ई-नीलामी द्वारा दिनांक 11.10.2019 को प्रातः 11

बजे से दोपहर 12 बजे तक (दोपहर 12.00 बजे के बाद 5 मिनट प्रत्येक की अवधि के विस्तार के साथ, यदि अपेक्षित है) को बेचा जाऐगा तथा सेवा प्रदाता मैसर्स सी-1 इंडिया प्रा. लि., उद्योग विहार फेज-2, गल्फ पैट्रोकैम बिल्डिंग, बिल्डिंग नं. 301, गुरूग्राम, हरियाणा-122015, फोन 0124-4302020/21/22/23/24, 09813887931, ई-मेल : support@bankeauctions.com से सम्पर्क करें। संपत्ति से संबंधित किसी भी जानकारी हेतु सीएच बैंक के ऑफिसर श्री नेम कुमार, मो. 9799961244, मो.: 9911865757 या श्री पवन कुमार,

वसूली सहायक से संपर्क किया जा सकता है। उपरोक्त नाम के प्रतिवादी की सम्पत्ति की बिक्री उपरोक्तानुसार सम्पत्ति के लिए संलग्न देनदारियों एवं दावें को जैसा अभी तक र्निधारित

किया गया है, वे प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। सम्पत्ति बिक्री के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट पर की जाएगी, यदि सम्पत्ति भाग की बिक्री की राशि संतुष्टि लायक होगी तो शेष के संबंध में बिक्री को तुरन्त समाप्त कर दिया जाएगा। नीलामी समाप्त होने से पूर्व बिक्री समाप्त कर दी जाएगी यदि बिक्री कर रहे अधिकारी के

समक्ष प्रमाणपत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज शुल्क (बिक्री लागत सहित) प्रस्तुत करने होंगे अथवा उनकी संतुष्टि के साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि प्रमाणपत्र, ब्याज एवं लागत अद्योहस्ताक्षरी को भुगतान किए जा चुके हैं। बिक्री से संबंधित कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति निविदा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोली, अधिग्रहण

अथवा प्रयास नहीं करेगा। आयकर अधिनियम 1961 के द्वितीय अनुसूची के शर्तों एवं उसके नियमों के तहत तथा निम्न शर्तों के अनुरूप ही बिक्री

बिक्री उदघोषणा के अनुसूची में उल्लिखित विवरण अद्योहस्ताक्षरी के सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है परन्तु किसी त्रूटी, गलत बयान अथवा उद्घोषणा में चूक के होने पर अद्योहस्ताक्षरी की जवाबदेही नहीं होगी।

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य / घरोहर राशि (ईएमडी)
1.	दुकान नं. 3, 4 और 9 (भूतल बिना छत के अधिकार), सम्पत्ति नं. 343 ओल्ड नं. 312 रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद में स्थित	रु. 1,40,00,000/- (रु. एक करोड चालीस लाख मात्र) धरोहर राशिः Rs. 14,00,000/- (रु. चालीस लाख मात्र)

बोली, कम से कम रू. 1,00,000/- (रु. एक लाख मात्र) बढ़ाई जा सकेगी। बोली अथवा बोलीदाता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में लॉट की नीलामी दोबारा की जाएगी। यदि उपलब्ध कोई भी बोलीदाता अपनी बोली नहीं बढ़ाता है, तब सर्वप्रथम प्राप्त ईएमडी अधोहस्ताक्षरी द्वारा आगे विचार हेतु रोक कर रखी जा सकती है।

3. किसी लॉट के उच्चतम बोलीदाता को क्रेता घोषित किया जाएगा। उच्चतम बोली को अस्वीकार करना अधोहस्ताक्षरी का विवेकाधिकार

होगा, यदि पेश की गई ऑफर उसको स्वीकार किए जाने हेत् स्पष्ट रूप से अपर्याप्त प्रतीत होती है। धरोहर राशि जमा करने हेत् पे आर्डर / डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "Recovery Officer-II, DRT-III, Delhi के पक्ष में दिल्ली मे देययोग्य हो को **वस्ती अधिकारी -।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली को दिनांक 14.10.2019 तक देनी होगी।** धरोहर राशि इसके पश्चात नीलामी के

लिए स्वीकार नहीं की जायेगी पैन कार्ड की प्रति, पते का प्रमाण तथा पहचान प्रमाण, ई—मेल आई डी, मोबाईल नम्बर और इस आशय की उदघोषणा कि वे स्वंय की ओर से या अपने स्वामी की और से बोली लगा रहे है, जमा करनी होगी। स्वामी की और से बोली लगाने वाले मामलो में बोली लगाने वाले को अपना प्राधिकार पत्र जमा करना होगा वरना बोली अस्वीकार कर दी जाएगी। कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की कम्पनी प्रति या कम्पनी के अटार्नी / प्रतिनिधित्व को पुष्ट करने वाले अन्य कोई आलेख्य तथा ऐसी जमा रशिद / काउन्टर फाईल कथित तिथि तक ई-मेल या अन्यथा द्वारा कथित सेवा प्रदाता या सी एच बैंक तक पहुंच जानी चाहिए और इसकी हार्ड कॉपी (स्थूलप्रति) **वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।,** दिल्ली के कार्यालय में जमा कराना होगा।

6. असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि डी आर टी - 111, दिल्ली से उपयुक्त आवेदन के पश्चात ई-नीलामी की तिथि के अगले दिन

7. सफल बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली का 25 प्रतिशत राशि, ईएमडी समायोजन के बाद, अगले बैंक कार्य दिवस को अर्थात अप. 03.00

बजे तक ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विवरणानुसार जमा करनी होगी। क्रेता को अंतिम बोली की 75 प्रतिशत राशि सम्पत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन को अथवा पूर्व जमा करनी होगी। यदि 15वां दिन

**रविवार या अवकाश है, तब 15वें दिन** के बाद पहले बैंक कार्य दिवस को ऊपर पैरा 4 में निर्धारित विधि में जमा करनी होगी। इसके अतिरिक्त क्रेता को रू. 1,000/- तक बिक्री मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर तथा रू. 1,000/- से अधिक पर बिक्री मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर पाउण्डेज फीस रजिस्ट्रार, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा वसूली अधिकारी-।।, डीआरटी-।।।, दिल्ली के पास

8. निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चुक की स्थिति में, सम्पत्ति की बिक्री नए सिरे से की जाएगी। ऐसी बिक्री से पहले उसकी नई उदघोषणा जारी की जाएगी। बोलीदाता द्वारा पहले जमा की गई राशि, यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपयुक्त समझा जाता है, बिक्री के व्यय काटने के बाद, सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी और चूककर्ता क्रेता के, सम्पत्ति अथवा उसके किसी अंश अथवा सम्पत्ति की पुनरबिक्री से प्राप्त होने वाली राशि के किसी अंश के संबंध में, सभी दावे जब्त हो जाएगें।

10. सम्पत्ति को "जहाँ हैं जैसा है और जो कुछ हैं आधार" पर बेचा जाएगा

11. अधोहस्ताक्षरी के पास, किसी भी या सभी बोलियों को, अनुपयुक्त पाए जाने पर, स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा किसी भी समय, बिना

_	सम्पत्तियों व	1 2	444	
लॉट नं.	बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है		विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति के सम्बंध में आग आया है एवं अन्य कोई ज्ञात विशिष्टियां जोकि इसके मूल्य एवं प्रकृति प्रमाव रखता है।
1.	दुकान नं. 3, 4 और 9 (भूतल बिना छत के अधिकार), सम्पत्ति नं. 343 ओल्ड नं. 312 रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद में स्थित	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

वैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India बैंक ऑफ इंडिया अलीगढ शाखा

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथ प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ शाखा** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.06.2019 को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता श्री नागेन्द्र सिंह और श्री नरेश पाल यादव और मैसर्स त्रिवेणी इन्डस्टी को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि रू. 98,65,951.55 + 31.05.2019 से आगे का ब्याज (अट्ठानवे लाख, पैसठ हजार नौ सौ इकावन और पचपन पैसे) को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सुचित किया जाता कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.09.2019 को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बैंक ऑफ इण्डिया, अलीगढ़ शाखा को देय धनराशि रू. 98,65,951,55 + आगे का ब्याज सहित अन्य शुल्क देना होगा। सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की

धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है। अचल सम्पत्ति का विवरण

वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जिसमें प्लॉट नम्बर/ फैक्ट नम्बर-डी-137, जो तालानगरी मे स्थित, तहसील, कोइल, जिला-अलीगढ ( यू.पी. ) यूपीएसआईडीसी अलीगढ द्वारा लीज आउट होने पर मैर्सस त्रिवेणी इन्डस्ट्री (पार्टनर्स-श्री नरेश पाल सिंह पुत्र श्री थान सिंह और श्री नागेन्द्र सिंह पत्र श्री राम सिंह ) के पक्ष में है और यह लीज उप-रजिस्टार-1 तहसील अलीगढ युपी में पंजीकत है।

उत्तर की ओर- 15 मीटर के बाद प्लाट नम्बर-ए-1 दक्षिण की ओर- 15 मीटर के बाद 24 फीट चौड़ी सड़क पूर्व की ओर- 40 मीटर के बाद प्लाट

पश्चिम की ओर- 40 मीटर के बाद प्लाट नम्बर-डी-136 दिनांक: 05.09.2019

स्थानः अलीगढ्

प्राधिकृत अधिकारी बैक ऑफ इंडिया

नीरज पेपर मार्केटिंग लिमिटेड CIN: L74899DL1995PLC066194

पंजीकृत कार्यालय – 218-222, अग्रवाल प्रेसटीज मॉल, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेंटर सड्क 44 के साथ, पीतमपुर दिल्ली-110034 पहली मींजल, शिवा मार्किट, पीतमपुरा दिल्ली-110034 Website: www.neerajpaper.com e-mail id: mansi@neerajpaper.com, Ph. No.: +91-11-47527700

वार्षिक साधारण बैठक बुक क्लोजर और ई-वोटिंग जानकारी की सुचना दद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी के शेयरधारकों की 24वीं वार्षिक साधारण बैठक सुचना में वर्णित व्यापार में लेन-देन के लिए सोमवार, 30 सितंबर, 2019 को सुबह 11.00 बजे बिपिन चंद्र पाल मेमोरियल भवन, ए-81 चितरंजन पार्क, नई दिल्ली ।10019 में आयोजित की जाएगी। सुचना पहले ही ई–मेल जिसके ई–मेल पते डिपोजिटरी/रजिस्टार व हस्तांतरण एजेंट के साथ पंजीकत हैं को व्यक्तिगत रूप से और डाक द्वारा जिनके ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं, भेजे जा चुके हैं। एजीएम की सूचना का प्रेषण 05 सितंबर, 2019 को पूरा कर लिया गया

कंपनी ने इलैक्टानिक द्वारा बोट का अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने सदस्यों को संविधा प्रदान की है और व्यापार सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा दी गई ई-बोटिंग सेवाओं द्वारा किया जा सकता है। ई-बोटिंग सुविधा लिंक www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगी। ई-बोटिंग अवधि की शुरुआत शुक्रवार, 27 सितंबर, 2019 को सुबह 9.00 बजे होगी और रविवार, 29 सितंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे होगी। शेयरधारक द्वारा एक बार वोट डाले जाने पर उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई-वोटिंक के उद्देश्य के लिए कट-ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितंबर, 2019 होगी। 24वीं एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.neerajpaper.com और वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी। क्विटानिक वाटिंग निर्देश के लिए, शेयरधारक कंपना को एजीएम को सचना में दिए निर्देश देख सकते हैं। कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा

108 और सेबी (सूचीबद्ध देवताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015,समय-समय पर संशोधित अनुसार के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी ने अपने सदस्यों को एजीएम की सुचना में वर्णित प्रस्तावों पर इलैक्ट्रानिक रूप से वोट डालने की सुविधा प्रदान की है। मैसर्स देवेश अरोडा एंड एसोसिएटस को निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-बोटिंग व बैलट वोटिंग प्रक्रिया की जांच के लिए जांचकर्ता के रूप से नियुक्त किया है। उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यकर्ता अनुसार विवरण

कट-ऑफ तिथि अर्थात् सोमवार, 23 सितंबर, 2019 तक शेयर रखने वाले और सूचना के प्रेयण के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले और कंपनी के शेयर प्राप्त करने वाले व्यक्ति लॉगिन आईडी व पासवर्ड प्राप्त करने के लिए 011-29961281 पर श्री पुनीत मिल्तलया beetalrta@gmail.com से संपर्क कर सकते हैं।

29 सितंबर, 2019 को शाम 5.00 बजे के बाद इलैक्ट्रानिक मोड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में प्रस्तुत सदस्य को बैठक के स्थल पर किए गए प्रबंध पोलिंग द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान की गई है। रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट करने के अपने अधिकार का प्रयोग वाले सदस्य साधारण बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे बैठक में दोबारा बोट करने की अनुमति नहीं होगी। कट-ऑफ तिथि तक डिपोजिटरीज द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं केवल वही बैलेट पेपर द्वारा एजीएम में वोटिंग/रिमोट

ई-वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ/शिकायत के मामले में, आप श्री पुनीत मिलल महा प्रबंधक, बिटल फाइनेशियल एंड कम्प्युटर सर्विसेज प्रा. लि. से beetalirta@gmail.com, टेलीफोन नं. 011 29961281 पर संपर्क कर सकते हैं। या सुश्री मानसी तनेजा कंपनी सचिव से mansi@neeralpaper.com टेलीफोन नं. 011 47527700 से संपर्क करें। त्वरित पुछे जाने प्रश्न (एफक्युज) और www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-वोटिंग पुस्तिका का संदर्भ ले सकते हैं।

कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 42 के साथ पठित कंपनीज (प्रबंधन व प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम के अनुपालन में एतदुद्वाराठ सृचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर व कंपनी की शे<mark>यर</mark> हस्तांतरण पुस्तिकाएं कंपनी की 24वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए सोमवार, 23.09.2019 से सोमवार, 34.09 2019 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी बोर्ड के आवेशानुसा

नीरजपेपर मार्केटिंग लिमिटेड के लिए

विनांक: 07,09,2019 स्थान : विल्ली

(मानसी कंपनी सचिव

## जगत ट्रेडिंग एंटरप्राईजेज लिमिटेड CIN: L74999DL1982PLC014411

पंजी. कार्यालय: 208, मैग्नम हाउस-II, करमपुरा कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली-110015 वेबसाईटः www.jtel.co.in

E-mail ID: jagattradingenterpriseslimited@gmail.com, 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित परिणामों का विवरण (रु. हजारों में)

क्रम	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही
सं.		30.6.2019	30.6.2019
		अनंकेक्षित	अनंकेक्षित
1.	प्रचालनों से राजस्व		
	बिक्री/ प्रचालनों से आय	5457.21	8695.56
	प्रचालनों से कुल राजस्व	5457.21	8695.56
2.	अन्य आय	1020.04	22.00
	कुल आय (1+2)	6,477.25	8,717.56
3.	खर्चे		
	क) व्यापार में भंडार में क्रय	769.40	10189.67
	ख) व्यापार में भंडार में इन्वेन्टरीज में परिवर्तन	5294.84	(571.75)
	ग) कर्मचारी लाभ व्यय	1159.23	1054.13
	घ) वित्त लागत	486.16	712.77
	ड.) मूल्य ह्रास एवं परिशोधन के खर्चे	2.57	3.68
	च) परिसम्पत्तियों के लिये प्रावधान	20.00	_
	छ) अन्य खर्चे	818.91	9046.14
	कुल खर्चे (3)	8551.11	20434.64
4.	विशिष्ट मद एवं कर से पूर्व (हानि) (3-2)	(2073.86)	(11717.08)
5.	विशिष्ट मद	-	2169.64
6.	कर से पूर्व हानि (4-5)	(2073.86)	(13886.72)
7.	कर व्यय (चालू कर एवं आस्थगित कर सहित)	191.12	(1001.13)
8.	अवधि के लिये कर के बाद हानि (6-7)	(2264.98)	(12885.59)
9.	अन्य व्यापक आय (वेट ऑफ टैक्स)	-	_
	ऐसा मद जो लाभ तथा हानि में पुनवर्गीकृत नहीं किया जायेगा	-	_
	ऐसा मद जो लाभ तथा हानि में पुनवर्गीकृत किया जायेगा	-	<u> </u>
10.	अवधि के लिये कुल व्यापक आय (8+9)	(2264.98	(12885.59)
11.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	50816.40	9964.00
12.	आय प्रति शेयर (सम मूल्य रु. 10/- प्रति)	(0.45)	(12.93)
	मूल एवं तरल	(वार्षिकीकृत	(वार्षिकीकृत
		नहीं)	नहीं)

## टिप्पणी:

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 6.9.2019

1. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों को ऑडिट किमटी द्वारा समीक्षा तथा सिफारिश किये जाने के बाद 6 सितम्बर, 2019 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है।

2. ये वित्तीय परिणाम सांविधिक लेखा परीक्षकों के द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन है। 3. लेखा मानक-17 में परिभाषित खंड रिपोर्टिंग लागू नहीं है क्योंकि कम्पनी एनबीएफसी व्यवसायों में संलग्न है।

4. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के अन्य खर्चे में रु. 500 हजार के चंदे सामिल हैं। 5. जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व तिमाही तथा समाप्त वर्ष के आंकड़े पुनर्वर्गीकृत/ पुनर्व्यवस्थित किये

6. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) की अधिसूचना तिथि 16 फरवरी, 2015 के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के लिये भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) अनिवार्य है। तदनुसार, कम्पनी ने 01 अप्रैल, 2019 से इंड एएस अपनाई है तथा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों को उक्त इंड एएस में निर्दिष्ट सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है तथा सांविधिक लेखा-परीक्षकों ने उसकी सीमित समीक्षा की है। 30 जून, 2018 को समाप्त तत्स्थानीय तिमाही के वित्तीय परिणामों को इंड एएस के अंतर्गत रीस्टेट किया गया है तथा उसे कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन नहीं रखा गया है। लेकिन, यह सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय परिणाम कम्पनी के क्रियाकलापों की सच्ची एवं स्वच्छ छवि प्रस्तुत करें, प्रबंधन ने उसका ड्यू डिजिलेन्स किया है।

आईजीएएपी तथा इंड एएस के अंतर्गत पूर्व में रिपोर्ट की गई लाभ तथा हानि का रीकंसिलिएशन	समाप्त तिमाही 30 जून 2018 (रु. हजारों में)
आईजीएएपी के अनुसार शुद्ध लाभ/ (हानि) जोड़कर निवेश तथा इन्वेन्टरी नेट ऑफ टैक्स) के उचित मूल्य में परिवर्तन	(12011.23) (874.36)
तिमाही के लिये कुल व्यापक आय	(12885.59)

जगत ट्रेडिंग एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिये (प्रवीण कुमार गोयल)

अध्यक्ष DIN No.: 00021153



## भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. (भारत सरकार का उपक्रम) (A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)

आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली-110020 सार्वजनिक नीलामी / निविदा सूचना ई- नीलामी के माध्यम से क्लीयर न किए गए/ अदावाकृत आयातित कार्गों का निपटान करना

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के उन कंटेनरो पर या 30.07.2019 से पडले उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र के टर्मिनलों पर पडे रदी वस्तुओं, खाली पड़े क्षतिग्रस्त कंटेनरों और अदावाकृत / बिलयर ना किये गए आयातित कार्गों की ई-नीलामी के माध्यम से 24.09.2019 एवं 30.09.2019 को "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी करेगा। नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्तों एवं कार्गों विदरणों के साथ सभी विवरण 09.09.2019 एव 13.09.2019 से www.concorindia.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध होंगे। सभी आयातको जिनमे सरकारी उपक्रम/विभाग भी शामिल हैं, के कंटेनर/सामान किसी विवाद, न्यायालय/ अधिकरणों / अन्यों द्वारा दिये गए स्थगन के कारण या ऐसे किसी ऐसे अन्य कारण से संबन्धित टर्मिनलों पर अदावाकृत / क्लीयर न किए गए पढे हैं और वेबसाइट में अपलोड की गई उक्त सुची में आते हैं, वे संबन्धित कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी मध्य क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र कॉनकोर और संबंधित कमीशनरी, सीमा शुक्क आयुक्त को तदनुसार सूचित कर सकते हैं और इस सूचना के 7 (सात दिनों) के भीतर ऐसे सामानों के निपटान के संबंध में अपनी आपातियाँ / दावे दर्ज करा सकते हैं । ऐसा नहीं करने पर और कोई सुधना दिये बगैर सामानों की "जैसा है जहां है के आधार पर" नीलामी कर दी जाएगी। पूर्ण विवरण के लिए कृपवा www.concorinda.co.in एवं www.mstcecommerce.com पर लॉग ऑन करें। कार्यकारी निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

## RHL PROFILES LIMITED

Phone No.:- 0512- 2330153

CIN: U27104UP1987PLC009209 Regd. Office:-Somani Bhawan, 51/27, Nayaganj Kanpur-208001 Corporate Office:4" Floor, 63/2, City Centre, The Mall, Kanpur-208001

Email Id:- cs@rhlprofiles.com Website:- www.rhlprofiles.com NOTICE is hereby given that the AGM of the Company is to be held on Monday, 30th September, 2019 at 09:00 am at City Centre, 4th Floor, The Mall, Kanpur-208001. In Compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the members are provided the facility to cast their vote electronically from a place other than venue of AGM (remote e-voting) on all resolution set forth in the Notice, for which the Company has engaged Central Depository Services Limited as e-voting agency. The Company has completed the dispatch of notice on 06.09.2019.

A person, whose name is recorded in the register of members or in the

register of beneficial owners as on the cut-off date i.e. 25th September 2019 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM. The remote e-voting period commences on Friday September 27, 2019 at 9:30 a.m. and ends on Sunday, September 29, 2019 at 5:00 pm. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Awashesh Dixit, Practicing Company Secretary as the scrutinizer for scrutinizing the e-voting process in a fair & transparent manner. The evoting shall not be allowed beyond 5:00 P.M of 29.09.2019. The members who have not casted their vote electronically can exercise their voting rights at the AGM through poll. The members who have casted their vote electronically can also attend AGM however they cannot vote at AGM. The result of e-voting shall be announced on or after the AGM of the Company, & it shall also be placed along with the scrutinizer report, on the website of the Company www.rhlprofiles.com & shall be affixed on the notice Board of registered office of the Company. In case of any queries or grievances relating to voting or in case any person who has acquired shares and become member of the Company after the dispatch of Notice, may contact secretarial department, RHL Profiles Limited, 63/2, City Centre, 4" Floor, The Mall, Kanpur, Tel: 0512-2330153 email: cs@rhlprofiles.com to obtain the login id and password. For RHL Profiles Limited

Place: Kanpur Date: 06.09.2019 Krishan Kr. Somani (M.D) DIN:01414928

Sd/-



पंजीकृत कार्यालयः एनबीसीसी प्लाजा, टॉवर-2, चौथा तल, पुष्प विद्वार, सैक्टर-5, साकेत, नई दिल्ली-110017 कॉर्पोरेट कार्यालयः 3/22-डी, सिविल लाइन्स, आगरा-दिल्ली बाईपास रोड, आगरा-282002 फोन नं 011-29574800, 0562-4054400 फैक्स नं 0562-4070011 वेबसाइट www.pncinfratech.com ई मेल complianceofficer@pncinfratech.com

> 20वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर एवं रिमोट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

कम्पनी के सदस्यों और सभी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 20वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 के प्रातः 11.00 बजे ऑडिटोरियम इस्कॉन कॉम्प्लैक्स, हरे कृष्णा हिल, संत नगर <mark>मेन</mark> रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली—110065 में एजीएम की सूचना मे निर्धारित अनुसार कामकाज के निष्पादन के लिए आयोजित की जाएगी। कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 20 के संदर्भ में 20वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को ई-मेल की गई है जिनके ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत है और इसे अन्य सभी सदस्यों को स्वीकार्य पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजा गया है तथा इन्हें कम्पनी की वेबसाइट

www.pncinfratech.com पर भी अपलोड किया गया है। अधिनियम की धारा 91 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूचीयन विनियम') वे विनियम 42 के अनुसरण में कम्पनी की एजीएम और लाभांश का भुगतान, यदि एजीएम में अनुमोदित हो जाता है, के लिए कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर एवं शेयर ट्रांसफर बुक मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 से सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 तक (दोनों दिवस शामिल) बंद रहेंगे।

लाभांश उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को व्यवसाय घंटों की समाप्ति पर लाभार्थी स्वामियों व रजिस्टर / सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे।

अधिनियम की धारा 108 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और सूचीयन विनियम के विनियम 44 के अनुसरण में कम्पनी वार्षिक आम बैठक में पारित किये जाने वाले प्रस्तावों (एजीएम प्रस्तावों) के संबंध में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) के ई-वोटिंग प्लेटफार्म के माध्यम से अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग (''रिमोट ई-वोटिंग'') की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग एवं बैलेट प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए श्री दीपक गुप्ता, कम्पनी सचिव, डीआर एसोसिएट्स के पार्टनर (सदस्यता सं. एफसीएस 5339; सीपी नं. 4629) को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सभी सदस्यगण ई—वोटिंग की निम्नलिखित

समय—सारणा का नाट कर लः	
विवरण	तिथि
अक द्वारा सूचना भेजने का कार्य पूरा करना	शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2019
-मेल द्वारा सूचना भेजने का कार्य पूरा करना	शुक्रवार, ६ सितम्बर, २०१९
—वोटिंग प्रारंभ होने की तिथि एवं समय	शुक्रवार, 27 सितम्बर, 2019 को प्रातः 9.00 बजे आईएसटी
—वोटिंग बंद होने की तिथि एवं समय	रविवार, 29 सितम्बर, 2019 को सायंः 5.00 बजे आईएसटी
रेमोट ई–वोटिंग के साथ ही आम सभा में वोटिंग ही सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारक ही पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि	

परिणाम की घोषणा बुधवार, 2 अक्टूबर, 2019 कृपया नोट करें कि एजीएम प्रस्तावों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वार वोटिंग की अनुमति निर्दिष्ट तिथि एवं समय के बाद नहीं दी जाएगी। सदस्यगण जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दिया है वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन उन्हें दोबारा एजीएम में वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी ेशेयरधारक द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट देने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर अधिग्रहित करता है और सूचना भेजे जाने के बाद कम्पनी का सदस्य बनता है तथा कट—ऑफ तिथि सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करता है, वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए 20वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित निर्देषों का पालन कर सकता है। तथापि जे व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही इंस्टावोट के साथ पंजीकृत है वह वोट देने के लिए अपने वर्तमान यूजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकता है। सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, वे एजीएम में पोलिंग पेपर या बैलेट पेपर के माध्यम से अपना वोट दे सकते हैं।

सदस्यों का वोटिंग अधिकार सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 (कट-ऑफ तिथि) को सदस्यों द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के साथ ही सदस्यों को ई-मेल की गई सूचना में उपलब्ध है। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी पूछताछ या शिकायत के लिए सदस्यगण https://instavote.linktime.co.in पर हेल्प सेक्शन के अंतर्गत ई—वोटिंग मैनुअल/अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (''एफएक्यु'') का अवलोकन कर सकते हैं या श्री राजीव रंजन, सहायक उपाध्यक्ष – ई-वोटिंग से फोन नं.-91 22 49186000 ई-मेल enotices@linkintime.co.in पर सम्पर्क कर सकते हैं या अधोहस्ताक्षरी से ई-मेल complianceofficer@pncinfratech.com फोन नं 0562-4054400 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड

तपन जैन कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

नई दिल्ली

तिथिः ६ सितम्बर, 2019

स्थानः आगरा

एम. नं. ए22603